



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 7 मई, 2011 / 17 वैशाख, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 मई, 2011

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-7 / 2011-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-05-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 29 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 मई, 2011 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 6 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) अनुसूची ‘ड’ के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर।” ।

3. **धारा 10 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 10 में, “और ‘घ’” शब्द, चिन्ह और अक्षर के स्थान पर “, ‘घ’ या ‘ड’” चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

4. **अनुसूची ‘ड’ का अंतःस्थापन.**—मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची ‘घ’ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची ‘ड’ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची ‘ड’

(धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) देखें)

विशेष दरों पर कराधेय माल

क्रम संख्या	माल	कर की दर
1.	2.	3.
1.	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी के सिवाय)	16 प्रतिशत
2.	बिड़ियां	9.75 प्रतिशत।” ।

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH MAY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (1), after clause (c), the following clause (d) shall be inserted, namely:—

“(d) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule ‘E’,”.

3. Amendment of section 10.— In section 10 of the principal Act, for the word, letter and signs “or ‘D’ ”, the signs, word and letters “, ‘D’ or ‘E’ ” shall be substituted.

4. Insertion of SCHEDULE ‘E’.—After SCHEDULE ‘D’ appended to the principal Act, the following SCHEDULE ‘E’ shall be inserted, namely:—

“SCHEDULE ‘E’

(See clause (d) of sub-section (1) of section 6)

GOODS TAXABLE AT SPECIAL RATES

<u>Sr. No.</u>	<u>Goods</u>	<u>Rate of Tax</u>
1.	2.	3.
1.	Tobacco and Tobacco Products, (except beedi)	16%
2.	Beedies	9.75%.”.

निर्वाचन विभाग

ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला, 06 मई, 2011

संख्या: 5-7/2011-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)/निर्वाचन कानूनगो पोषक वर्ग के श्री ख्याली राम, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) को तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/-रूपए जमा 4400/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।

पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

हस्ताक्षरित /—
सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।